



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 36

1 जनवरी, 2021

संख्या 1

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां*

मद	2019		2020		घट - बढ़	
	27 दिसंबर		18 दिसंबर		सप्ताह	
	1	2	3	4	5	वर्ष
1 जारी नोट	2244118	2749870	2751470	1599	507351	
1.1 संचलन में नोट	2244106	2749859	2751458	1599	507352	
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	11	12	1	-1	
2 जमा राशियां						
2.1 केंद्र सरकार	101	101	100	-1	-1	
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना						
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	-	0	
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	541417	488262	457719	-30544	-83699	
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6593	5437	5507	70	-1087	
2.6 अन्य बैंक	33918	28477	30068	1591	-3850	
2.7 अन्य	331060	931707	967535	35828	636475	
3 अन्य देयताएं	1145007	1480676	1476078	-4598	331071	
कुल देयताएं / आस्तियां	4302257	5684572	5688518	3946	1386261	
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3056898	3984553	3982175	-2378	925277	
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	195484	272328	270026	-2302	74542	
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1003838	1283889	1294151	10262	290313	
4 ऋण और अग्रिम						
4.1 केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	
4.2 राज्य सरकारें	2112	6303	3946	-2357	1834	
4.3 नाबार्ड	-	26133	26133	0	26133	
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	30427	77098	77318	220	46891	
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-	
4.8 अन्य	4479	25069	25067	-2	20589	
5 खरीदे और धुनाए गए बिल						
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-	
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-	
6 निवेश	1964	1964	1964	0	0	
7 अन्य आस्तियां	7055	7235	7739	504	683	

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	25 दिसंबर 2020 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4272332	580841	-2616	-290	670177	103034	1007603	123373
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3953337	537474	-2342	-253	619522	95261	920723	112538
1.2 स्वर्ण	270026	36711	-2302	-308	39499	6133	74541	9320
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11108	1510	-34	-4	308	78	827	70
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	37862	5145	2061	276	10849	1562	11513	1446

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

1 जनवरी, 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹444745 करोड़	2020													2021
	19 दिसंबर	20 दिसंबर	21 दिसंबर	22 दिसंबर	23 दिसंबर	24 दिसंबर	25 दिसंबर	26 दिसंबर	27 दिसंबर	28 दिसंबर	29 दिसंबर	30 दिसंबर	31 दिसंबर	1 जनवरी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	453368	451933	433904	431718	431746	466857	457719							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.9	101.6	97.6	97.1	97.1	105.0	102.9							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	18 दिसंबर 2020 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	207296	1189	8535	-27053	33578	21933
1.2 बैंकों से उधार	44609	740	-13336	-19392	-27736	-21514
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	17811	568	-3008	1648	2560	5680
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14482560	-100528	435109	915068	1192608	1473679
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.7	3.5	6.7	10.1	11.3
2.1.1 मांग	1566656	-25435	-156487	-50347	164888	211856
2.1.2 मीयादी	12915904	-75092	591596	965415	1027720	1261824
2.2 उधारियां	252045	-592	-59253	-57394	-38496	-66956
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	609220	6803	16306	5544	22861	49268
3 रिज़र्व बैंक से उधार	77098	1	-154942	-208525	-152243	51352
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	573104	10911	3020	-50343	92271	-70500
4.1 उपलब्ध नकदी	84841	-602	6239	-2419	11897	3725
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	488262	11513	-3219	-47924	80374	-74226
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	150630	-3074	-76354	-4771	-69734	3936
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	9907	2281	-11367	-10366	-13205	-10978
5.3 बैंकों को अग्रिम	20885	-720	-5529	-9647	-7396	-3221
5.4 अन्य आस्तियां	28630	-355	-8071	-25401	4900	-6178
6 निवेश	4412246	-76762	343171	664897	376317	688019
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-1.7	10.1	17.7	11.2	18.5
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4410487	-77077	333896	671791	366340	697589
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1759	315	9275	-6894	9977	-9570
7 बैंक ऋण	10549549	51861	175721	178688	659808	602105
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.5	1.8	1.7	7.1	6.1
7 क.1 खाद्य ऋण	93152	-2760	43533	41388	7802	8009
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10456396	54621	132188	137300	652006	594096
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10378101	49288	217326	228592	667534	638781
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	22586	-401	-1025	-3072	5881	-2612
7 ख.3 भुनाए गए	101037	1423	-29714	-44646	-9449	-27545
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	17524	419	-2298	-2934	-343	-4766
7 ख.5 भुनाए गए	30301	1132	-8568	747	-3815	-1753

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2019	2020				
	27 दिसंबर	27 नवंबर	4 दिसंबर	11 दिसंबर	18 दिसंबर	25 दिसंबर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	3.86	..	3.96	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	71.99	..	72.84	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	12.49	..	19.53	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	30.78	..	30.47	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	73.03	..	72.66	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.45/9.40	7.40/8.80	7.40/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.65/8.00	6.60/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10	6.55/7.10	6.55/7.10
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.20/6.40	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	5.11	3.10	3.07	3.12	3.20	3.24
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.03	2.93	3.05	3.11	3.13	3.11
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.22	3.26	3.32	3.35	3.35	3.35
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.30	3.39	3.39	3.45	3.45	3.46
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.74	5.84	5.83	5.91	5.92	5.91
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	71.22	73.80	73.74	73.59	73.51	73.58
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	79.19	88.02	89.64	89.47	90.03	89.81
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.96	3.36	3.58	3.47	3.55	3.84
3-माह	3.90	3.52	3.58	3.51	3.59	3.75
6-माह	4.38	4.23	4.33	4.24	4.38	4.35

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	18 दिसंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	18059064	-94222	-0.5	630911	4.1	1259101	7.5	1513283	10.4	1996086	12.4
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2681605	3753	0.1	128391	6.3	331857	14.1	229606	11.8	501004	23.0
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1688686	-24946	-1.5	-152556	-9.4	-49006	-2.8	171356	13.2	214730	14.6
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13646985	-72939	-0.5	652839	5.6	972969	7.7	1103415	9.8	1272542	10.3
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41788	-90	-0.2	2237	7.0	3281	8.5	8906	35.5	7810	23.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5635878	-189071	-3.2	531193	12.1	675516	13.6	685025	16.2	716195	14.6
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	980473	-111523		177970		-11719		296915		552	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4655405	-77548	-1.6	353223	9.8	687235	17.3	388110	10.9	715643	18.2
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11207338	52649	0.5	216923	2.1	168693	1.5	722599	7.3	607696	5.7
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	11205	329		-8661		-1961		-2579		4503	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11196133	52320	0.5	225584	2.2	170654	1.5	725178	7.3	603193	5.7
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4512336	12563	0.3	360498	11.7	711300	18.7	551666	19.2	1080997	31.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26618	-	-	291	1.1	271	1.0	392	1.5	440	1.7
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	3026427	3323106	-29637	-0.9	477993	19.6	296679	9.8	446399	18.1	409242	14.0
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1378342	1478577	10762	0.7	64301	6.1	100235	7.3	72752	6.9	355481	31.7

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	25 दिसंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3314105	-26337	-0.8	114461	4.1	284398	9.4	266925	10.2	429163	14.9
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2778076	1599	0.1	133574	6.3	330765	13.5	245305	12.1	507732	22.4
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि	543888	493293	-28883	-5.5	-20040	-3.3	-50595	-9.3	14560	2.6	-88636	-15.2
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	42736	947	2.3	927	2.9	4228	11.0	7060	27.6	10067	30.8
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	1011641	31168		187461		19449		251127		22229	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	1007738	33526		186869		17997		249776		20396	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-513490	-57736		-392332		-312597		-396800		-274009	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-524695	-57736		-383412		-310636		-393922		-278771	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4263000	-4682	-0.1	403577	14.2	672597	18.7	503146	18.3	1010836	31.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26618			351	1.4	271	1.0	440	1.7	380	1.4
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1378342	1473664	-4913	-0.3	84596	8.0	95322	6.9	90988	8.6	330273	28.9

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफ सी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+ 9+10+11+12+ 13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4				5	6					
21 दिसंबर 2020	-	589587	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-49	-589636
22 दिसंबर 2020	-	607671	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-607671
23 दिसंबर 2020	-	616455	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-373	-616825
24 दिसंबर 2020	-	620625	-	-	50	-	-	-	10000	-	-	-	-	-610575
25 दिसंबर 2020	-	7521	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-7363
26 दिसंबर 2020	-	3194	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-3155
27 दिसंबर 2020	-	3910	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-3899

* इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं। ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

** 'जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिह्न विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।'

& ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अक्तूबर	नवंबर	अक्तूबर	नवंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	147.2	148.6	158.4	158.9	0.3	6.9	6.9
1.1 ग्रामीण	148.3	149.9	159.8	160.7	0.6	7.3	7.2
1.2 शहरी	146.0	147.0	156.7	156.9	0.1	6.5	6.7
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	..	..	119.5	119.9	0.3	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	122.0	122.3	123.8	124.2	0.3	3.2	1.6
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	145.5	147.2	152.4	151.2	- 0.8	10.0	2.7
3.2 ईंधन और बिजली	102.3	101.3	91.1	91.3	0.2	- 8.2	- 9.9
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.8	117.8	120.3	121.3	0.8	2.3	3.0

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
20 नवंबर 2020	67680	792	3.35 - 4.54
4 दिसंबर 2020	69440	6299	3.08 - 4.63

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
30 नवंबर 2020	373146	64386	2.79 - 8.80
15 दिसंबर 2020	390613	102308	2.65 - 12.61

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	27 दिसंबर 2019	18 दिसंबर 2020	25 दिसंबर 2020
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	27553	17573	16769
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1177	5251	972
3 सीबीएलओ#	339731	529871	426080
4 बाजार रेपो	230092	366239	295246
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	1528	2468	1055

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

25 दिसंबर 2020 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	2158	13914	90891	216706
182-दिवसीय	107133	34064	4273	211361
364-दिवसीय	148927	120863	16217	414921
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (25 दिसंबर 2020 तक)	2019 - 20 (27 दिसंबर 2019 तक)	2019-20	2020 - 21 (25 दिसंबर 2020 तक)	2019 - 20 (27 दिसंबर 2019 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1027000	618000	710000	833935	516972	473972
2. राज्य सरकारें	536998	377995	634521	437803	268895	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।